



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 2023

चैत्र 23, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 940/पन्द्रह-5-2023-1600(279)-2021

लखनऊ, 13 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

सा10प0नि0-20

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (षष्ठम संशोधन)  
नियमावली, 2022

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी; संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- नियम 13 का संशोधन

स्तम्भ-1

## विद्यमान व्यवस्था

## नियम 13

13-चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना-(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवंटन पर :-

(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना पट पर अधिसूचित करेगा;

(दो) चयन किए गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतन्त्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबन्धतन्त्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट 'ब' में दिए गये निर्देश में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाये, जिसमें उसे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाये और उसे यह भी सूचित किया जाये कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबन्धतन्त्र से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित करे।

(2) प्रबन्धतन्त्र उपनियम (1) के अधीन दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से बोर्ड को देगा।

स्तम्भ-2

## प्रतिस्थापित व्यवस्था

## नियम 13

13-चयन किये गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचना-(1) निरीक्षक, पैनल की प्राप्ति के दस दिन के भीतर और नियम 12 के अधीन संस्था के आवंटन पर:-

(एक) इसे अपने कार्यालय के सूचना पट पर अधिसूचित करेगा;

(दो) चयन किए गये अभ्यर्थी का नाम संस्था के प्रबन्धतन्त्र को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निदेश के साथ सूचित करेगा कि प्रबन्धतन्त्र के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर परिशिष्ट 'ड' में दिए गये निदेश में अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाये, जिससे उसे आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाये और उसे यह भी सूचित किया जाये कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके कार्यभार ग्रहण न करने पर उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

(तीन) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ सूचना भेजेगा कि वह प्रबन्धक से नियुक्ति का आदेश प्राप्त करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जिसकी अनुमति प्रबन्धतन्त्र द्वारा उसे दी जाये, प्रबन्धक को अपनी उपस्थिति सूचित करे।

(2) प्रबन्धतन्त्र उपनियम (1) के अधीन दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा और इसके अनुपालन की सूचना निरीक्षक के माध्यम से बोर्ड/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को देगा।

स्तम्भ-1**विद्यमान व्यवस्था****नियम 13**

(3) जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतन्त्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहाँ, ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक, प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल से योग्यता क्रम में उसके बाद हो, भेजेगा और उसकी सूचना संयुक्त निदेशक और बोर्ड को देगा, और उपनियम (1) और (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) संयुक्त निदेशक अनुश्रवण (मानीटरिंग) करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करें और इस प्रयोजन के लिये वह निरीक्षक को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा उचित समझे।

(5) जहाँ बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका, तो जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए बोर्ड को अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के विरुद्ध, बोर्ड को संस्तुति करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने पर बोर्ड अधिसूचित रिक्ति के विरुद्ध ऐसे अभ्यर्थी को, कोई दूसरी संस्था आवंटित करेगा।

स्तम्भ-2**प्रतिस्थापित व्यवस्था****नियम 13**

(3) जहाँ उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतन्त्र इस निमित्त अनुमति दे, पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे या जहाँ, ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, वहाँ निरीक्षक, प्रबन्धतन्त्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थियों के नाम उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से करेगा। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये अवशेष पैनल (25 प्रतिशत से अनधिक) से योग्यता क्रम में नाम निरीक्षक को भेजेगा और निरीक्षक उपनियम (1) के अधीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार पैनल जारी करेगा।

(4) संयुक्त शिक्षा निदेशक अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करें और इस प्रयोजन के लिये वह निरीक्षक को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(5) जहाँ बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी रिक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण न कर सका हो तो निरीक्षक ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए जिला में उसी वर्ष की प्रकाशित रिक्ति के सापेक्ष अधिसूचित किसी अन्य रिक्ति के सापेक्ष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को संस्तुति करेगा। निरीक्षक की संस्तुति प्राप्त होने पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जिला में उपलब्ध अन्य रिक्त पदों के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी को, दूसरी संस्था आवंटित करेगा। यदि जिला में सम्बन्धित श्रेणी/विषय में रिक्ति न हो तो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त उसी वर्ष की प्रकाशित रिक्ति के सापेक्ष अधिसूचित रिक्ति के सापेक्ष समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 940/XV-5-2023-1600(279)-2021, dated April 13, 2023 :

No. 940/XV-5-2023-1600(279)-2021

*Dated Lucknow, April 13, 2023*

In exercise of the powers conferred by section 35 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 (U.P. Act no. 5 of 1982) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Rules, 1998.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION  
BOARD (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2022

Short title and  
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Sixth Amendment) Rules, 2022;

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of  
rule 13

2. In the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Rules, 1998, *for* existing rule 13 set-out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

*Existing rule*

**13. Intimation of names of selected candidates**—(1) The Inspector shall, within ten days of the receipt of the panel and the allocation of institution under rule 12,-

(i) Notify it on the notice board of his office;

(ii) Intimate the name of selected candidate to the management of the institution, which has notified the vacancy, with the direction that, on authorization under resolution of the management, an order of appointment, in the proforma given in Appendix 'E' be issued to the candidate by registered post within fifteen days of the receipt of the intimation requiring him to join duty within fifteen days of the receipt of the order or within such extended time, as may be allowed to him by the management, and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment will be liable to be cancelled;

(iii) Send an intimation to the candidate, referred to in clause (ii), with the direction to report to the Manager within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the manager or within such extended time as may be allowed to him, by the management.

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

**13. Intimation of names of selected candidates**—(1) The Inspector shall, within ten days of the receipt of the panel and the allocation of institution under rule 12,-

(i) Notify it on the notice board of his office;

(ii) Intimate the name of selected candidate to the management of the institution, which has notified the vacancy, with the direction that, on authorization under resolution of the management, an order of appointment, in the proforma given in Appendix 'E' be issued to the candidate by registered post within fifteen days of the receipt of the intimation requiring him to join duty within fifteen days of the receipt of the order or within such extended time, as may be allowed to him by the management, and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment will be liable to be cancelled;

(iii) Send an intimation to the candidate, referred to in clause (ii), with the direction to report to the Manager within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the manager or within such extended time as may be allowed to him, by the management.

COLUMN-I	COLUMN-II
<i>Existing rule</i>	<i>Rule as hereby substituted</i>
<p>(2) The management shall comply with the directions given under sub-rule (1) and report compliance thereof to the Board through the Inspector.</p>	<p>(2) The management shall comply with the directions given under sub-rule (1) and report compliance thereof to the Board/Director of Secondary Education through the Inspector.</p>
<p>(3) Where the candidate, referred to in sub-rule (1), fails to join the post within the time allowed in the letter of appointment or within such extended time as the management may allow in this behalf or where such candidate is otherwise not available for appointment the Inspector may, on the request of the Management, intimate fresh name or names standing next in order of merit on the panel, under intimation to the Joint Director and the Board, and the provisions of sub-rules (1) and (2) shall <i>mutandis</i> apply.</p>	<p>(3) Where the candidate, referred to in sub-rule (1), fails to join the post within the time allowed in the letter of appointment or within such extended time as the management may allow in this behalf or where such candidate is otherwise not available for appointment. The Inspector, on the request of the Management, shall request the Director of Secondary Education to provide the - name of such new candidates. The Director of Secondary Education will send the names of the remaining panels (not more than 25 per cent) provided by the Board to the Inspector in order of merit and the Inspector shall issue the panel according to the instructions given by the Director of Secondary Education and under sub-rule (1).</p>
<p>(4) The Joint Director shall monitor and ensure that the candidates selected by the Board join the institution in the specified time and for this purpose, he may issue such directions to the Inspector as he thinks proper.</p>	<p>(4) The Joint Director of Education shall monitor and ensure that the candidates selected by the Board join the institution in the specified time and for this purpose, he may issue such directions to the Inspector as he thinks proper.</p>
<p>(5) Where a candidate selected by the Board could not join in an allotted institution due to non-availability of vacancy or for any other reason, the District Inspector of School shall recommend to the Board for adjustment of such candidate against any other vacancy notified to the Board in any institution. On receipt of the recommendation of the District School Inspector the Board shall allocate such candidate to another institution in a vacancy notified to the Board.</p>	<p>(5) Where a candidate selected by the Board could not join in an allotted institution due to non-availability of vacancy or for any other reason, than the Inspector shall recommend to the Director of Secondary Education against any other vacancy notified against published vacancy of same year in the district for adjustment of such candidate. On receipt of the recommendation of the Inspector the Director of Secondary Education shall allot another institution to such a candidate against other vacant</p>

COLUMN-I*Existing rule*COLUMN-II*Rule as hereby substituted*

posts available in the district. If there is no vacancy in the concerned category/subject in the District, adjustment action will be taken by the Director of Secondary Education against the vacancy notified against published vacancy of same year received from the Joint Director of Education.

By order,

DEEPAK KUMAR,

*Apar Mukhya Sachiv.*